



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 886) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
27 जुलाई 2016

सं० 22 नि० सि० (मुज०)—06-07/2016/1527—श्री प्रभु नारायण पाण्डेय (आई० डी० जे० 5255), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी सम्प्रति सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, मोतिहारी को उक्त प्रमण्डल के अन्तर्गत वर्ष, 2016 में बगहा शहर के नजदीक रतनमाला एवं पुअर हाउस में कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि की क्षति के लिए मामले में पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
4. श्री पाण्डेय, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 886-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>